

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025 — फाल्गुन 5, शक 1946

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम रायगढ़ जिला रायगढ़ के माह फरवरी 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	महापौर	—	—	जीवर्धन चौहान	सोनकर पारा वार्ड क्र. 38 ,रायगढ़
2	पार्षद	1	एक	डिग्री लाल साहू	राजीव नगर कोतरा रोड़, रायगढ़
3	पार्षद	2	दो	नेहा देवांगन	धांगरडीपा प्रियदर्शी गेट के पास रायगढ़
4	पार्षद	3	तीन	प्रदीप विजय चन्द्र टोप्पो (राजू)	रामभांठा, टाड़गर गली, वार्ड क्र.04 रायगढ़ (छ.ग.)
5	पार्षद	4	चार	अमृत जानकी काटजू	जगतपुर, होटल अंश के पीछे, रामभाठा रोड़ रायगढ़ (छ.ग.)
6	पार्षद	5	पांच	सुमित्रा खोलू सारथी	रामभाठा जवाहर नगर रायगढ़
7	पार्षद	6	छः	रेखा देवी	दीनदयाल कोलोनी, ढिमरापुर रायगढ़
8	पार्षद	7	सात	आरिफ हुसैन (सोमू)	इंदिरा नगर, रायगढ़ (छ.ग.)
9	पार्षद	8	आठ	ज्योति यादव	तुरी पारा चांदमारी, रायगढ़
10	पार्षद	9	नौ	अमित कुमार शर्मा	सिद्धी विनायक कालोनी, रायगढ़
11	पार्षद	10	दस	मोहम्मद नवाब (नब्बू)	नगर निगम कालोनी, रायगढ़ (छ.ग.)
12	पार्षद	11	ग्यारह	अन्नु सारथी	जोगीडीपा वार्ड नं. 11 रायगढ़ (छ.ग.)

1	2	3	4	5	6
13	पार्षद	12	बारह	जयन्त ठेटवार	ठेटवार पारा गांजा चौक रायगढ़
14	पार्षद	13	तेरह	लक्ष्मीनारायण साहू	केवड़ाबाड़ी शिवानगर, रायगढ़ (छ.ग.)
15	पार्षद	14	चौदह	अनुपमा शाखा यादव	रामलीला मैदान रायगढ़ (छ.ग.)
16	पार्षद	15	पन्द्रह	विकास ठेटवार (बबलू)	सतीगुड़ी चौक दरोगापारा रायगढ़ (छ.ग.)
17	पार्षद	16	सोलह	अशोक यादव	बैकुण्ठपुर, धांगरडीपा रायगढ़ (छ.ग.)
18	पार्षद	17	सतरह	सलीम भाई	इकबाल गैरेज के सामने, हण्डी चौक, थाना रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
19	पार्षद	18	अठारह	पूनम दिबेस सौलकी	देवगाव अपार्टमेण्ट दरोगापारा रायगढ़
20	पार्षद	19	उन्नीस	सुरेश गोयल	वार्ड क्रमांक -19 गांधी चौक रायगढ़
21	पार्षद	20	बीस	शरद सराफ "हरि"	पैलेस रोड, कोष्टापारा, रायगढ़
22	पार्षद	21	ईक्कीस	अजय शंकर मिश्रा	श्रीराम कालोनी बेलदुला रायगढ़
23	पार्षद	22	बाईस	सरिता केशव जायसवाल	तिलक स्कूल के पीछे चक्रधरनगर रायगढ़ (छ.ग.)
24	पार्षद	23	तेईस	पंकज कंकरवाल	आदर्श स्कूल के पास, कसेर पारा रायगढ़
25	पार्षद	24	चौबीस	त्रिवेणी डहरे	बिनोबानगर प्रधान डाक घर रायगढ़ (छ.ग.)
26	पार्षद	25	पच्चीस	श्वेता सिंह क्षत्रिय	चिरंजीव दास नगर पहाड़ मंदिर रोड़ रायगढ़
27	पार्षद	26	छब्बीस	सरिता राजेन्द्र ठाकुर	खालसा गैस एजेंसी के पास अतरमुड़ा रायगढ़ छ.ग.
28	पार्षद	27	सताईस	आशीष ताम्रकार (गुड्डा)	जिला पंचायत कार्यालय पास छोटे अतरमुड़ा वार्ड नंबर 26 रायगढ़
29	पार्षद	28	अठाइस	इजी0 अक्षय कुलदीप (टिल्लू)	शिवमंदिर के पास पंजरी प्लाट रायगढ़ छ.ग.
30	पार्षद	29	उनतीस	जानकी भारद्वाज	जेलपारा मुक्तिधाम के पास रायगढ़
31	पार्षद	30	तीस	मुक्तिनाथ प्रसाद (बबुआ)	बाजीरावपारा रायगढ़
32	पार्षद	31	ईकतीस	त्रिनिशा चौहान (निशी)	जुटमिल पुलिस चौकी के पीछे रायगढ़
33	पार्षद	32	बत्तीस	नरेश कुमार पटेल	फटहामुड़ा वार्ड नंबर 33, तह. व जिला रायगढ़ छ0ग0
34	पार्षद	33	तैंतीस	अमरनाथ रात्रे	गांधी नगर, वार्ड नं. 33, रायगढ़
35	पार्षद	34	चौतीस	यादराम साहू	कबीर चौक, नवापारा वार्ड क्र. 34, रायगढ़
36	पार्षद	35	पैंतीस	ज्योति बरेठ	कबीर चौक, झोपड़ी पारा, रायगढ़
37	पार्षद	36	छतीस	विजय चौहान (गुहा)	राजीव गांधी नगर, मिठूमुड़ा, रायगढ़
38	पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमती धनेश्वरी द्वितीया	नवापारा सोनमुड़ा, वार्ड नं. 37 रायगढ़
39	पार्षद	38	अठतीस	कुन्दन देहरी	सोनकर पारा, रेल्वे स्टेशन वार्ड क्रं-38, रायगढ़
40	पार्षद	39	उनचालीस	संगीता मुक्कु यादव	रेलवे बंगला पारा, पॉवर हाउस रोड, रायगढ़
41	पार्षद	40	चालीस	शोभा देवांगन	कोतरा रोड, सोनया नगर, रायगढ़
42	पार्षद	41	ईकतालीस	आशा खड़िया	मकान नं. वार्ड क्र. 41, सहदेवपाली, रायगढ़
43	पार्षद	42	बीयालिस	उसत राम भट्ट	सोनूमुड़ा बजरंग पारा वार्ड, अमलीभौना, रायगढ़
44	पार्षद	43	तियालिस	विष्णुचरण पटेल	प्राथमिक शाला के सामने बरमुड़ा, रायगढ़

1	2	3	4	5	6
45	पार्षद	44	चौवालिस	मोनिता पटेल	पतरापाली मुख्य बस्ती, दक्षिण रायगढ़
46	पार्षद	45	पैंतालिस	नारायण पटेल	वार्ड नं. 45 उपर मोहल्ला भगवानपुर रायगढ़
47	पार्षद	46	छियालिस	आनंद भगत	मकान नं. एस-4, पुलिस लाईन उर्दना, रायगढ़
48	पार्षद	47	सैतालिस	संतोषी पदुमलाल प्रजा	विजयपुर, रायगढ़
49	पार्षद	48	अठतालिस	महेश शुक्ला	बोईरदादर, रायगढ़

हस्ता./-

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 22 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Municipal Corporation Raigarh, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected:-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	MAYOR	-	-	JIVARDHAN CHOUHAN	SONKAR PARA WARD NO. 38 RAIGARH
2	Councillor	1	One	DIGREE LAL SAHU	RAJIV NAGAR KOTRA ROAD RAIGARH
3	Councillor	2	Two	NEHA DEWANGAN	DHANGARDIPA PRIYADARSHI GATE KE PAAS RAIGARH
4	Councillor	3	Three	PRADEEP VIJAY CHANDRA TOPPO (RAJU)	RAMBHANTHA TIGER GALI WARD NO-04 RAIGARH
5	Councillor	4	Four	AMRIT JANKI KATJU	JAGATPUR HOTEL ANSH KE PICHE RAMBHANTHA ROAD RAIGARH
6	Councillor	5	Five	SUMITRA KHOLU SARTHI	RAMBHANTHA JAWAHAR NAGAR RAIGARH
7	Councillor	6	Six	REKHA DEVI	DINDAYAL COLONY DHIMRAPUR RAIGARH
8	Councillor	7	Seven	ARIF HUSSAIN (SOMU)	INDIRA NAGAR RAIGARH

1	2	3	4	5	6
9	Councillor	8	Eight	JYOTI YADAV	TURI PARA CHANDMARI RAIGARH
10	Councillor	9	Nine	AMIT KUMAR SHARMA	SIDHIVINAYAK COLONY, RAIGARH
11	Councillor	10	Ten	MOHAMMAD NAWAB (NABBU)	NAGAR NIGAM COLONY RAIGARH
12	Councillor	11	Eleven	ANNU SARTHI	JOGIDIPA WARD NO 11 RAIGARH
13	Councillor	12	Twelve	JAYANT THETHWAR	THETHWAR PAR GANJA CHAUK RAIGARH
14	Councillor	13	Thirteen	LAXMI NARAYAN SAHU	KEWDABADI SHIVANAGAR RAIGARH
15	Councillor	14	Fourteen	ANUPAMA SHAKHA YADAV	RAMLEELA MAIDAN RAIGARH
16	Councillor	15	Fifteen	VIKAS THETHWAR (BABLU)	SATIGUDI CHOUK DAROGAPARA RAIGARH
17	Councillor	16	Sixteen	ASHOK YADAV	BAIKUNTHPUR DHANGARDIPA RAIGARH
18	Councillor	17	Seventeen	SALIM BHAI	IQBAL GARAGE KE SAMNE HANDI CHOUK THANA ROAD RAIGARH
19	Councillor	18	Eighteen	POONAM DIBESH SOLANKI	DEOGHAR APPARTMENT DAROGA PARA RAIGARH
20	Councillor	19	Nineteen	SURESH GOYAL	WARD NO 19 GANDHI CHOUK RAIGARH
21	Councillor	20	Twenty	SHARAD SARAF "HARI"	PALACE ROAD KOSHTAPARA RAIGARH
22	Councillor	21	Twenty-One	AJAY SHANKAR MISHRA	SRIRAM COLONY BELADULA RAIGARH
23	Councillor	22	Twenty-Two	SARITA KESHAW JAISAWAL	TILAK SCHOOL KE PICHE CHAKRADHARNAGAR RAIGARH
24	Councillor	23	Twenty three	PANKAJ KANKARWAL	AADARSH SCHOOL KE PICHE KASER PARA RAIGARH
25	Councillor	24	Twenty four	TRIVENI DAHRE	BINOBANAGAR PRADHAN DAKGHAR RAIGARH
26	Councillor	25	Twenty five	SWETA SINGH KSHATRIYA	CHIRANJIVI DAS NAGAR PAHAD MANDIR ROAD RAIGARH
27	Councillor	26	Twenty Six	SARITA RAJENDRA THAKUR	KHALSHA GAS AGENCY ATARMUDA RAIGARH
28	Councillor	27	Twenty Seven	ASHISH TAMRAKAR (GUDDA)	DISTRICT PANCHAY OFFICE KE PAAS CHHOTE ATARMUDA WARD NO 26 RAIGARH

1	2	3	4	5	6
29	Councillor	28	Twenty Eight	ER. AKSHAY KULDEEP (TILLU)	SHIV MANDIR KE PAAAS PANJRI PLANT RAIGARH
30	Councillor	29	Twenty Nine	JANKI BHARDWAJ	JAILPARA MUKTIDHAM KE PAAS RAIGARH
31	Councillor	30	Thirty	MUKTINATH PRASAD (BABUA)	BAJIRAO PARA RAIGARH
32	Councillor	31	Thirty one	TRINISHA CHOUHAN (NISHI)	JUTMIL POLICE CHOUKI KE PICHE RAIGARH
33	Councillor	32	Thirty Two	NARESH KUMAR PATEL	FATAHAMUDA WARD NO 33 RAIGARH
34	Councillor	33	Thirty Three	AMAR NATH RATRE	GANDHI NAGAR WARD NO 33 RAIGARH
35	Councillor	34	Thirty Four	YADRAM SAHU	KABIR CHOUK NAWAPARA ROAD WARD NO 33RAIGARH
36	Councillor	35	Thirty Five	JYOTI BARETH	KABIR CHOUK JHOPDI PARA RAIGARH
37	Councillor	36	Thirty Six	VIJAY CHOUHAN (Guha)	RAJIV GANDHI NAGAR MITHUMUDA RAIGARH
38	Councillor	37	Thirty Seven	SHRIMATI DHANESHWARI DWITIYA	NAWAPARA SONUMUDA WARD NO 37 RAIGARH
39	Councillor	38	Thirty Eight	KUNDAN DEHARI	SONKAR PARA RAILWAY STATION WARD NO 38 RAIGARH
40	Councillor	39	Thirty Nine	SANGEETA MUKKU YADAV	RAILWAY BANGLAPARA POWER HOUSE ROAD RAIGARH
41	Councillor	40	Forty	SHOBHA DEWANGAN	KOTRA RAOD SONYA NAGAR RAIGARH
42	Councillor	41	Forty One	ASHA KHADIYA	WARD NO 41 SAHADEVPALI RAIGARH
43	Councillor	42	Forty Two	USAT RAM BHATT	SONUMUDA BAJARANG PARA AMLIBHONA RAIGARH
44	Councillor	43	Forty Three	VISHNUCHARAN PATEL	PRATHAMIK SHALA KE SAMNE RAIGARH
45	Councillor	44	Forty Four	MONITA PATEL	PATARAPALI MUKHYA BASTI DHAKHISN RAIGARH
46	Councillor	45	Forty Five	NARAYAN PATEL	WARD NO 45 UPAR MUHALLA BHAGWANPUR RAIGARH
47	Councillor	46	Forty Six	ANAND BHAGAT	MAKAN NO S4 POLICE LINE URDANA RAIGARH
48	Councillor	47	Forty Seven	SANTOSHI PADUM LAL PARAJA	VIJAYPUR RAIGARH

1	2	3	4	5	6
49	Councillor	48	Forty Eight	MAHESH SHUKLA	BOIRDADAR RAIGARH

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद् खरसिया, जिला रायगढ़ के माह फरवरी 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए है :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	कमल गर्ग	वार्ड क्र. 13 गंज पीछे खरसिया
2	पार्षद	01	एक	निर्मला विजय शर्मा	जवाहर कालोनी खरसिया
3	पार्षद	02	दो	श्वेता सुनील विश्वकर्मा	हमाल पारा बस स्टैण्ड वार्ड क्र. 02 खरसिया
4	पार्षद	03	तीन	कुमारी छोटु महंत	वार्ड क्र. 3 स्टेशन तालाब के पास खरसिया
5	पार्षद	04	चार	पूर्णमा रवि सहिस	वार्ड क्र.4 खरसिया
6	पार्षद	05	पांच	दीपक अग्रवाल (दीपक भैया)	हमालपारा खरसिया
7	पार्षद	06	छः	विनोद लाला राठौर	पुरानी बस्ती खरसिया
8	पार्षद	07	सात	ललित कुमार राठौर	पुरानी बस्ती वार्ड क्र. 7 खरसिया
9	पार्षद	08	आठ	राधे राठौर	पुरानी बस्ती खरसिया
10	पार्षद	09	नौ	विनोद सिदार	सौरा पारा पुरानी बस्ती खरसिया
11	पार्षद	10	दस	देवप्रसाद चौहान (पतालु)	चंदन तालाब पार खरसिया
12	पार्षद	11	ग्यारह	अरुण अग्रवाल (चौधरी)	पुत्रीशाला रोड खरसिया
13	पार्षद	12	बारह	दीपक कुमार अग्रवाल	छपरीगंज खरसिया
14	पार्षद	13	तेरह	राम शर्मा	वार्ड क्र. 13 खरसिया
15	पार्षद	14	चौदह	रेखा केथलीया	वार्ड क्र. 14, गंजपीछे खरसिया
16	पार्षद	15	पन्द्रह	साहिल शर्मा (चिन्नु)	छपरीगंज पंजाब नेशनल बैंक के सामने खरसिया
17	पार्षद	16	सोलह	अवधनारायण बंटी सोनी	सराफा लाईन खरसिया

1	2	3	4	5	6
18	पार्षद	17	सत्रह	मुरली राठौर	ठाकुरदिया वार्ड क्र. 18 खरसिया
19	पार्षद	18	अठारह	जुगेश्वरी गिरधारी गबेल	ठाकुरदिया खरसिया

हस्ता./-

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Municipal Council Kharsia, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected:-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	&	&	Kamal Garg	Ward No. 13 Ganj Pichhe Kharsia
2	Councillor	01	One	Nirmala Vijay Sharma	Jawahar Colony Kharsia
3	Councillor	02	Two	Shweta Sunil Viswakarma	Hamal Para Bus Stand Ward No. 02 Kharsia
4	Councillor	03	Three	Kumari Chhotu Mahant	Ward No. 03 Station Talab Ke Pass Kharsia
5	Councillor	04	Four	Purnima Ravi Sahis	Ward No. 04 Kharsia
6	Councillor	05	Five	Deepak Agrawal (Deepak Bhaiya)	Hamalpara Kharsia
7	Councillor	06	Six	Vinod Lala Rathore	Purani Basti Kharsia
8	Councillor	07	Seven	Lalit Kumar Rathore	Purani Basti Ward No. 07 Kharsia
9	Councillor	08	Eight	Radhe Rathore	Purani Basti Kharsia
10	Councillor	09	Nine	Vinod Sidar	Soura Para Purani Basti Kharsia
11	Councillor	10	Ten	Dev prasad Chauhan (Patalu)	Chandan Talab Par Kharsia
12	Councillor	11	Eleven	Arun Agrawal (Choudhry)	Putrishala Road Kharsia
13	Councillor	12	Twelve	Deepak Kumar Agrawal	Chhpariganj Kharsia
14	Councillor	13	Thirteen	Ram Sharma	Ward No. 13 Kharsia
15	Councillor	14	Fourteen	Rekha Kethaliya	Ward No. 14 Ganjpichhe Kharsia

1	2	3	4	5	6
16	Councillor	15	Fifteen	Sahil Sharma (Chinu)	Chhapiganj Punjab National Bank Ke Samne Kharsia
17	Councillor	16	Sixteen	Awadhnarayan Bunty Soni	Sarafa Line Kharsia
18	Councillor	17	Seventeen	Murli Rathore	Thakurdiya Ward No. 18 Kharsia
19	Councillor	18	Eighteen	Jugeshvari Girdhari Gavel	Thakurdiya Kharsia

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ के माह फरवरी, 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	मानी मोहित सतपथी	वार्ड 08, नगर पंचायत पुसौर
2	पार्षद	1	एक	प्रदीप यादव	बोरोडिपा वार्ड 01, नगर पंचायत पुसौर
3	पार्षद	2	दो	श्री फगुलाल प्रधान	वार्ड 02, नगर पंचायत पुसौर
4	पार्षद	3	तीन	मंजू निराकार पटेल	सोढ़ापाठ, वार्ड 03, नगर पंचायत पुसौर
5	पार्षद	4	चार	ऋतेश थवाईत	स्टेट बैंक के पास, नगर पंचायत पुसौर
6	पार्षद	5	पांच	ओकेश बेहरा	नाईपारा, वार्ड 05, नगर पंचायत पुसौर
7	पार्षद	6	छः	बलराम संवरा	देवलास पारा, नगर पंचायत पुसौर
8	पार्षद	7	सात	उमा सिदार	आदिवासी मोहल्ला, पुसौर
9	पार्षद	8	आठ	अनिमा अंशु साव	संवरापारा, पुसौर
10	पार्षद	9	नौ	रमा प्रमोद गुप्ता	गौटियापारा, पुसौर
11	पार्षद	10	दस	वरुणदेव महाणा	कोलतापारा, पुसौर
12	पार्षद	11	ग्यारह	रूपेश कुमार साव	मु. पो. पुसौर
13	पार्षद	12	बारह	शीकबाई सारथी	सारथीपारा, नगर पंचायत पुसौर

1	2	3	4	5	6
14	पार्षद	13	तेरह	उमेश कुमार साव	मु. पो. पुसौर
15	पार्षद	14	चौदह	शौकीलाल चौहान	चौहान मोहल्ला, पुसौर
16	पार्षद	15	पन्द्रह	किशोर कसेर	कांजी हाउस पारा, पुसौर

हस्ता./-

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Nagar Panchayat Pusaur, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	-	-	Mani Mohit Satpathi	Ward No 08, Nagar Panchayat Pusaur
2	Councillor	1	One	Pradeep Yadav	Borodipa, Ward No 01, Nagar Panchayat Pusaur
3	Councillor	2	Two	Fagulal Pradhan	Ward No 02, Nagar Panchayat Pusaur
4	Councillor	3	Three	Manju Nirakar Patel	Sodhapath, Ward No 03, Nagar Panchayat Pusaur
5	Councillor	4	Four	Ritesh Thawait	State Bank k Pass, Nagar Panchayat Pusaur
6	Councillor	5	Five	Okesh Behera	Naipara, Ward No 05, Nagar Panchayat Pusaur
7	Councillor	6	Six	Balram Sanvra	Devlas para, Nagar Panchayat Pusaur
8	Councillor	7	Seven	Uma Sidar	Aadivashi Mohalla, Pusaur
9	Councillor	8	Eight	Anima Anshu Sao	Sanvrpara, Pusaur
10	Councillor	9	Nine	Rama Pramod Gupta	Goutiyapara, Pusaur
11	Councillor	10	Ten	Varundev Mahana	Koltapara, Pusaur
12	Councillor	11	Eleven	Rupesh Kumar Sao	Vill. Post Pusaur
13	Councillor	12	Twelve	Sheekbai Sarthi	Sarthipara, Nagar Panchayat Pusaur
14	Councillor	13	Thirteen	Umesh Kumar Sao	Vill. Post Pusaur

1	2	3	4	5	6
15	Councillor	14	Fourteen	Shoukilal Chouhan	Chouhan Mohalla, Pusaur
16	Councillor	15	Fifteen	Kishor Kaser	Kanji House para, Pusaur

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर जिला रायगढ़ के माह फरवरी, 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	हरिकिशोर चन्द्रा	वार्ड कं 03 आजाद चौक, किरोड़ीमलनगर
2	पार्षद	01	एक	हेमलाल विश्वकर्मा	वार्ड कं 01 इंदिरा आवास, किरोड़ीमलनगर
3	पार्षद	02	दो	कमलेश यादव माधव	वार्ड 02 आजाद चौक, किरोड़ीमलनगर
4	पार्षद	03	तीन	लखन साहू	वार्ड कं 03 आजाद चौक, किरोड़ीमलनगर
5	पार्षद	04	चार	प्रियंका संतोष साहनी	वार्ड कं 04 मिनी नगर, किरोड़ीमलनगर
6	पार्षद	05	पांच	अजय राय	वार्ड कं 05 शौकीनगर, किरोड़ीमलनगर
7	पार्षद	06	छः	नन्द कुमार यादव	वार्ड कं 06 विजय नगर (पू.), किरोड़ीमलनगर
8	पार्षद	07	सात	अमरनाथ सिंह	वार्ड कं 07 विजयनगर (प.), किरोड़ीमलनगर
9	पार्षद	08	आठ	सुरेश साहू	वार्ड कं 08 नान्हूनगर, किरोड़ीमलनगर
10	पार्षद	09	नौ	कृष्णा चन्द्रा	वार्ड कं 09 उच्चभिटठी रोड, किरोड़ीमलनगर
11	पार्षद	10	दस	सुदामा चौहान	वार्ड कं 10 शांतिनगर, किरोड़ीमलनगर
12	पार्षद	11	ग्यारह	अनुपी सुकलाल सिदार	वार्ड कं 11 कोकडीतराई, किरोड़ीमलनगर

1	2	3	4	5	6
13	पार्षद	12	बारह	जानकी देवी चन्द्रा	वार्ड कं 12 कोकडीतराई (प.), किरोडीमलनगर
14	पार्षद	13	तेरह	रुखसाना इकबाल	वार्ड कं 10 शांतिनगर, किरोडीमलनगर
15	पार्षद	14	चौदह	कामिनी उमेश चौहान	वार्ड कं 14 रेल्वे लाइन पारा, किरोडीमलनगर
16	पार्षद	15	पन्द्रह	मनीषा विमल तांती	वार्ड कं 15 केबिन पारा, किरोडीमलनगर

हस्ता./-

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Nagar Panchayat Kirodimal Nagar, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	1	One	Harikishor Chandra	Ward 03 Azad chowk, Kirodimalnagar
2	Councillor	01	One	Hemlal Vishwakarma	Ward 01 Indira Awash, Kirodimalnagar
3	Councillor	02	Two	Kamlesh Yadav Madhav	Ward 02 Azad chowk, Kirodimalnagar
4	Councillor	03	Three	Lakhan sahu	Ward 03 Azad Chowk, Kirodimalnagar
5	Councillor	04	Four	Priyanka Santosh Sahani	Ward 04 Mini Nagar, Kirodimalnagar
6	Councillor	05	Five	Ajay Rai	Ward 05 Shouki Nagar, Kirodimalnagar
7	Councillor	06	Six	Nand Kumar Yadav	Ward 06 Vijaynagar (E), Kirodimalnagar
8	Councillor	07	Seven	Amarnath Singh	Ward 07 Vijaynagar (W), Kirodimalnagar
9	Councillor	08	Eight	Suresh Sahu	Ward 08 Nanhunagar, Kirodimalnagar
10	Councillor	09	Nine	Krishna Chandra	Ward 09 Uchchbhatti Road, Kirodimalnagar

1	2	3	4	5	6
11	Councillor	10	Ten	Sudama Chouhan	Ward 10 Shanti Nagar, Kirodimalnagar
12	Councillor	11	Eleven	Anupi Suklal Sidar	Ward 11 Kokditarai, Kirodimalnagar
13	Councillor	12	Twelve	Janki Devi Chandra	Ward 12 Kokditarai (w), Kirodimalnagar
14	Councillor	13	Thirteen	Rukhsana Iqbal	Ward 10 Shanti Nagar, Kirodimalnagar
15	Councillor	14	Fourteen	Kamini Umesh Chouhan	Ward 14 Railway Line Para, Kirodimalnagar
16	Councillor	15	Fifteen	Manisha Vimal Tanti	Ward 15 Cabin Para, Kirodimalnagar

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत घरघोड़ा जिला रायगढ़ के माह फरवरी, 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए है :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	सुरेंद्र सिंह चौधरी	वार्ड क्र. 13, घरघोड़ा
2	पार्षद	1	एक	बैतल राठिया	वार्ड क्र. 01, घरघोड़ा
3	पार्षद	2	दो	श्याम भोजवानी	वार्ड क्र. 02, घरघोड़ा
4	पार्षद	3	तीन	भोलू उरांव	वार्ड क्र. 03, उरांव पारा घरघोड़ा
5	पार्षद	4	चार	विमला जोल्हे	वार्ड क्र. 03, महात्मा गांधी मोहल्ला घरघोड़ा
6	पार्षद	5	पांच	अनिल लकड़ा	वार्ड क्र. 01 कसैयाडीपा
7	पार्षद	6	छः	गोलू यश सिन्हा	वार्ड क्र. 08, घरघोड़ा
8	पार्षद	7	सात	संजय डोन्डे (संजू)	वार्ड क्र. 04, घरघोड़ा
9	पार्षद	8	आठ	राजकुमारी रमेश डनसेना	वार्ड क्र. 08, घरघोड़ा
10	पार्षद	9	नौ	पितांबर निषाद	वार्ड क्र. 06, घरघोड़ा
11	पार्षद	10	दस	अमित त्रिपाठी	वार्ड क्र. 15, घरघोड़ा
12	पार्षद	11	ग्यारह	मिथिलेश पेटू शर्मा	वार्ड क्र. 10, भार्मा चौक, घरघोड़ा
13	पार्षद	12	बारह	अनुराधा पैकरा	वार्ड क्र. 12, घरघोड़ा

1	2	3	4	5	6
14	पार्षद	13	तेरह	कल्पना रितेश शर्मा	वार्ड क्र. 13, हनुमान चौक, घरघोड़ा
15	पार्षद	14	चौदह	तिलेश्वर पद्मन पैकरा	वार्ड क्र. 12, घरघोड़ा
16	पार्षद	15	पन्द्रह	राजेश मित्तल	वार्ड क्र. 15, घरघोड़ा

हस्ता./-

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Nagar Panchayat Gharghoda, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	-	-	SURENDRA SINGH CHOUDHARY	Ward no. 13 gharghoda
2	Councillor	1	One	BAITAL RATHIA	Ward no. 01, gharghoda
3	Councillor	2	Two	SHYAM BHOJWANI	Ward no. 02, gharghoda
4	Councillor	3	Three	BHOLU URAON	Ward no. 03, uraon para gharghoda
5	Councillor	4	Four	VIMLA JOLHE	Ward no. 03 mahatmagandhi mohalla gharghoda
6	Councillor	5	Five	ANIL LAKRA	Ward no. 01, kasaiyadipa
7	Councillor	6	Six	GOLU YASH SINHA	Ward no. 08, gharghoda
8	Councillor	7	Seven	SANJAY DONDE (SANJU)	Ward no. 04, gharghoda
9	Councillor	8	Eight	RAJKUMARI RAMESH DANSENA	Ward no. 08, gharghoda
10	Councillor	9	Nine	PITAMBAR NISHAD	Ward no. 06, gharghoda
11	Councillor	10	Ten	AMIT TRIPATHI	Ward no. 15, gharghoda
12	Councillor	11	Eleven	MITHILESH PETU SHARMA	Ward no. 10 sharma chowk, gharghoda
13	Councillor	12	Twelve	ANURADHA PAINKRA	Ward no. 12, gharghoda
14	Councillor	13	Thirteen	KALPANA RITESH SHARMA	Ward no. 13 hanuman chowk, gharghoda
15	Councillor	14	Fourteen	TILESHWAR PADMAN PAINKRA	Ward no. 12, gharghoda
16	Councillor	15	Fifteen	RAJESH MITTAL	Ward no. 15, gharghoda

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के माह फरवरी, 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए है :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	अनिल सरकार	वार्ड नं. 08 संतोषनगर धरमजयगढ़
2	पार्षद	1	एक	मीतू तपन भद्र	वार्ड क्र. 01 धरमजयगढ़ कालोनी, पो. शाहपुर, तह. धरमजयगढ़
3	पार्षद	2	दो	रीमा विकास अधिकारी	वार्ड नं. 02 शाहपुर कालोनी, पो. शाहपुर, तह. धरमजयगढ़
4	पार्षद	3	तीन	माधो बाई राठिया	वार्ड 03 पीपरमार धरमजयगढ़ रायगढ़
5	पार्षद	4	चार	डॉ. अख्तरी खुर्शीद खान	वार्ड. नं. 04 सिविल लाईन तुरांपारा धरमजयगढ़
6	पार्षद	5	पांच	श्रीमती वंदना कटारिया	सिविल लाईन वार्ड क्र. 04 धरमजयगढ़
7	पार्षद	6	छः	टारजन भारती	कचहरी वार्ड धरमजयगढ़
8	पार्षद	7	सात	विजय यादव	वार्ड क्र. 07 रायगढ़ रोड पतरापारा धरमजयगढ़
9	पार्षद	8	आठ	जानू सिंह सिदार	वार्ड 07 पतरापारा धरमजयगढ़
10	पार्षद	9	नौ	अर्चना अविनाश एक्का	वार्ड नं. 09 जेलपारा धरमजयगढ़
11	पार्षद	10	दस	हफीजउल्ला खान (दारा भाई)	नरईटिकरा धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़
12	पार्षद	11	ग्यारह	जगन्नाथ यादव	वार्ड क्र. 11 नीचेपारा धरमजयगढ़
13	पार्षद	12	बारह	गगनदीप जसबीर सिंह कोमल	वार्ड क्र. 12 धरमजयगढ़
14	पार्षद	13	तेरह	अजय राठिया	वार्ड क्र. 13 झुलनबर धरमजयगढ़ रायगढ़
15	पार्षद	14	चौदह	नरेश कुमार राठिया	वार्ड क्र. 14 कोदवारीपारा धरमजयगढ़
16	पार्षद	15	पन्द्रह	प्रिसिल्ला टोप्पो	चिकटवानी वार्ड क्र. 15 धरमजयगढ़

हस्ता./—

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Nagar Panchayat Dharamjaigarh, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	-	-	ANIL SARKAR	Ward No. 08 Santoshnagar Dharamjaigarh
2	Councillor	1	One	MEETU TAPAN BHADRA	Ward No. 01 Dharamjaigarh Colony, P.O. Shahpur, Teh. Dharamjaigarh
3	Councillor	2	Two	RIMA VIKAS ADHIKARI	Ward No. 02 Shahpur Colony, P.O. Shahpur, Teh. Dharamjaigarh
4	Councillor	3	Three	MADHO BAI RATHIA	Ward 03 Piparmar Dharamjaigarh Raigarh
5	Councillor	4	Four	DR. AKHTARI KHURSHEED KHAN	Ward No. 04 Civil Line Turrapara Dharamjaigarh
6	Councillor	5	Five	SMT. VANDANA KATARIYA	Civil Line Ward No. 04 Dharamjaigarh
7	Councillor	6	Six	TARZAN BHARTI	Kachahari Ward Dharamjaigarh
8	Councillor	7	Seven	VIJAY YADAV	Ward No. 07 Raigarh Road Patarapara Dharamjaigarh
9	Councillor	8	Eight	JANU SINGH SIDAR	Ward 07 Patarapara Dharamjaigarh
10	Councillor	9	Nine	ARCHNA AVINASH EKKA	Ward No. 09 Jelpara Dharamjaigarh
11	Councillor	10	Ten	HAFIJULLA KHAN (DARA BHAI)	Naraitikara Dharamjagarh, District- Raigarh
12	Councillor	11	Eleven	JAGANNATH YADAV	Ward No. 11 Nichepara Dharamjaigarh
13	Councillor	12	Twelve	GAGANDEEP JASBIR SINGH KOMAL	Ward No. 12 Dharamjaigarh
14	Councillor	13	Thirteen	AJAY RATHIA	Ward No. 13 Jhulanbar Dharamjaigarh Raigarh
15	Councillor	14	Fourteen	NARESH KUMAR RATHIA	Ward No. 14 Kodwaripara Dharamjaigarh
16	Councillor	15	Fifteen	PRICILLA TOPPO	Chikatwani Ward No. 15 Dharamjaigarh

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ-66-1/तीन(दो)/न.पा./अधिसूचना/2025/4446. – छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लैलुंगा, जिला रायगढ़ के माह फरवरी, 2025 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित पद हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए है :-

अनुसूची

क्रमांक	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष	—	—	कपिल सिंघानिया	लैलुंगा
2	पार्षद	1	एक	किशन सारथी	लैलुंगा
3	पार्षद	2	दो	आदित्य बाजपेयी	लैलुंगा
4	पार्षद	3	तीन	सरिता तिलक पटेल	लैलुंगा
5	पार्षद	4	चार	सविता नटवर अग्रवाल	लैलुंगा
6	पार्षद	5	पांच	सुनील कुमार भगत	लैलुंगा
7	पार्षद	6	छः	योजना पैकरा	लैलुंगा
8	पार्षद	7	सात	कृष्णा सुरेश जायसवाल छोटू	लैलुंगा
9	पार्षद	8	आठ	रेखा शम्भू सारथी	लैलुंगा
10	पार्षद	9	नौ	शंकर लाल यादव	लैलुंगा
11	पार्षद	10	दस	पवन कुमार निंगानिया	लैलुंगा
12	पार्षद	11	ग्यारह	सुशीला मुण्डा	लैलुंगा
13	पार्षद	12	बारह	लल्लू मुण्डा	लैलुंगा
14	पार्षद	13	तेरह	विनय कुमार गुप्ता (पिन्टू)	लैलुंगा
15	पार्षद	14	चौदह	कृष्णा जयसवाल	लैलुंगा
16	पार्षद	15	पन्द्रह	अमरजीत भगत	लैलुंगा

हस्ता./—

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th February 2025

NOTIFICATION

No. F-66-1/Three(two)/NP./Notification/2025/4446. - In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the General election held in the month of February, 2025 of the Nagar Panchayat Lailunga, District Raigarh for the post mentioned in column 2 of the following schedule, the people mentioned in column 5 are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	President	-	-	Kapil Singhania	Lailunga
2	Councillor	1	one	Kishan Sarthi	Lailunga
3	Councillor	2	Two	Aditya Bajpai	Lailunga
4	Councillor	3	Three	Sarita Tilak Patel	Lailunga
5	Councillor	4	Four	Savita Natwar Agrawal	Lailunga
6	Councillor	5	Five	Sunil Kumar Bhagat	Lailunga
7	Councillor	6	Six	Yojana Painkra	Lailunga
8	Councillor	7	Seven	Krishna Suresh Jaiswal Chhotu	Lailunga
9	Councillor	8	Eight	Rekha Shambhoo Sarthi	Lailunga
10	Councillor	9	Nine	Shankar Lal Yadav	Lailunga
11	Councillor	10	Ten	Pawan Kumar Ningania	Lailunga
12	Councillor	11	Eleven	Sushila Munda	Lailunga
13	Councillor	12	Twelve	Lallu Munda	Lailunga
14	Councillor	13	Thirteen	Vinay Kumar Gupta (Pintu)	Lailunga
15	Councillor	14	Fourteen	Krishna Jaiswal	Lailunga
16	Councillor	15	Fifteen	Amar Jeet Bhagat	Lailunga

Sd/-

(Sarveshwar Narendra Bhure)
Secretary.